

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2020	2021		विव 2020-21	2020	2021	
			मार्च	फर.			मार्च	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	3.14	2.44	2.92	161943141	13808922	15872384	17383479
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	1.27	0.95	0.91	110634315	8427404	10901991	11182301
1.1.1 आउटराइट	6.28	0.86	0.47	0.42	10032187	1306083	681845	678873
1.1.2 रेपो	2.84	0.23	0.24	0.26	43751173	3096901	3678988	4362390
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.19	0.24	0.23	56850956	4024420	6541158	6141037
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.82	1.44	1.95	48903961	5034489	4629628	5828078
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.04	0.05	0.06	2404865	347030	340765	373100
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	—	—	—	—	—	—	—	—
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	118.95	157.70	202.35	105599849	12047221	9050425	12982215
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	117.06	156.20	200.70	91008367	10368946	7645510	11427958
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.89	1.50	1.65	14591482	1678274	1404916	1554257
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317851.82	19743.26	30592.16	37208.47	33522150	2831185	2936833	4053692
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.32	0.66	0.92	1.16	623	36	54	72
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	1247.79	835.54	1128.83	112747	7951	5369	11086
2.3 आईएमपीएस	32783.47	2168.23	3189.73	3631.44	2941500	201962	275230	327236
2.4 एनएसीएच जमा \$	16449.51	1234.43	815.96	1648.80	1232714	131109	78273	164083
2.5 एनईएफटी	30927.89	2623.70	2821.07	3481.39	25130910	2283665	2152844	3046329
2.6 यूपीआई @	223306.64	12468.45	22928.94	27316.85	4103658	206462	425063	504886
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.68	0.82	0.94	172	12	13	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10440.40	818.06	861.58	1023.06	872399	76126	76497	86351
3.1 भीम आधार पे @	160.84	8.88	9.33	12.92	2580	141	223	346
3.2 एनएसीएच नामे \$	9629.61	791.30	781.07	904.64	868906	75952	76185	85851
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	17.88	71.18	105.50	913	33	88	154
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57841.30	5246.70	5067.32	5681.24	1293080	98783	119582	139715
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1638.57	1613.77	1887.27	630414	50574	60105	72319
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	900.64	863.91	1012.86	280769	26656	27754	33286
4.1.2 अन्य \$	8952.25	737.93	749.87	874.41	349645	23918	32350	39033
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40200.24	3608.13	3453.55	3793.97	662667	48209	59478	67396
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20805.24	1925.25	2013.95	2240.07	378044	27238	37465	42816
4.2.2 अन्य \$	19395.00	1682.88	1439.60	1553.89	284623	20971	22013	24580
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49392.26	3982.85	4519.80	5154.57	197695	15341	18274	21371
5.1 वॉलेट	39987.01	3178.60	3652.79	4182.92	152065	13111	12742	14856
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9405.25	804.25	867.00	971.65	45630	2229	5532	6515
5.2.1 पीओएस आधारित \$	437.31	81.02	35.79	42.20	11639	1021	1257	1579
5.2.2 अन्य \$	8967.94	723.23	831.21	929.45	33992	1209	4275	4937
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	710.34	636.07	806.59	5627189	565315	547109	722031
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.53	710.01	636.07	806.59	5625941	565046	547109	722031
6.2 अन्य	1.17	0.33	0.00	0.00	1249	269	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442229.48	30501.21	41676.93	49873.93	41512514	3586750	3698295	5023161
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	443821.40	30620.16	41834.63	50076.28	147112363	15633971	12748721	18005375
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437117.70	29909.81	41198.56	49269.69	141485173	15068656	12201612	17283344

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
			मार्च	फर.			मार्च	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	252364.97	13830.33	24274.50	32971.49	9089832	520199	931529	1246220
1.1 इंटर-बैंक \$	25130.99	1287.27	2345.81	4852.88	1865484	109624	186602	270764
1.2 इंटर-बैंक \$	227233.98	12543.06	21928.69	28118.60	7224348	410575	744927	975456
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32483.42	2530.83	2900.22	3390.80	41534334	3421077	3999196	4976087
2.1 इंटर-बैंक @	6886	584.09	580.98	707.26	20601554	1595574	2076458	2355028
2.2 इंटर-बैंक @	25597.27	1946.74	2319.24	2683.55	20932780	1825503	1922739	2621059
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.79	5444.16	5534.33	6040.00	2889825	248574	259249	285267
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	7.54	4.98	5.92	2560	360	253	307
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	5413.75	5506.07	6007.92	2878025	247429	258100	283955
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.15	22.87	23.28	26.16	9239	785	895	1006
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.60	33.69	21.79	22.38	1532	110	117	119
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.33	30.55	19.81	19.49	1483	105	114	114
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	3.14	1.98	2.90	49	5	3	5
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	344.98	656.57	763.86	225420	9993	18381	22276
5.1 एईपीएस @	9460.43	344.98	656.57	763.86	225420	9993	18381	22276

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021 तक	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	8863.07	9556.49	9602.51
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	577.45	616.47	620.49
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8285.62	8940.02	8982.02
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21951.37	18251.64	21556.23	21951.37
2.1 वॉलेट @	20052.10	17032.85	19733.68	20052.10
2.2 कार्ड @	1899.27	1218.79	1822.56	1899.27
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.35	2.39
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.11	2.10	2.14
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.25	0.25
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	2.71	3.73	4.04
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	43.71	47.15	47.20
6 भारत क्यूआर @	35.70	20.28	34.92	35.70
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	—	875.86	925.22

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।